Vigyapan Sankhya: 2-Pariksha 2018

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक (सामान्य चयन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा - 2018

Examination Date 22 & 23-Dec-18

Shift - 1| 22-Dec-18 | Test Booklet Set - FF

Q NO	Ans	Q NO	Ans	Q NO	Ans	Q NO	Ans	Q NO	Ans
1	A	31	A	61	B	91	C	121	A
2	B	32	C	62	D	92	D	122	C
3	D	33	D	63	B	93	D	123	B
4	C	34	B	64	B	94	D	124	A
5	B	35	C	65	C	95	D	125	A
6	A	36	B	66	B	96	A	126	C
7	D	37	D	67	C	97	D	127	B
8	C	38	A	68	D	98	C	128	C
9	B	39	B	69	C	99	C	129	A
10	D	40	A	70	B	100	A	130	C
11	C	41	C	71	B	101	A	131	B
12	B	42	D	72	B	102	D	132	D
13	C	43	D	73	B	103	B	133	A
14	C	44	A	74	B	104	A	134	B
15	B	45	C	75	C	105	D	135	C
16	D	46	B	76	B	106	A	136	D
17	A	47	A	77	A	107	C	137	B
18	B	48	B	78	A	108	B	138	A
19	C	49	C	79	B	109	D	139	C
20	B	50	D	80	C	110	A	140	D
21	A	51	D	81	A	111	B	141	B
22	D	52	D	82	C	112	D	142	C
23	B	53	A	83	D	113	A	143	B
24	C	54	C	84	B	114	B	144	A
25	D	55	B	85	C	115	B	145	A
26	A	56	C	86	C	116	D	146	D
27	B	57	C	87	D	117	A	147	B
28	A	58	B	88	C	118	B	148	B
29	C	59	C	89	A	119	D	149	A
30	D	60	D	90	D	120	B	150	D